



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257553  
CG-DL-E-27092024-257553

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946

No. 556]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

संख्या 17/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 598(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "आइसोब्यूटीलीन -आइसोप्रीन रबड़ ('आईआईआर') (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4002 31 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 06/05/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024, जिसे दिनांक 30 जून, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

- (i) प्राधिकारी ने प्रोडक्ट कंट्रोल नंबर (पीसीएन) पद्धति अपनाई है तथा उसे अधिसूचित किया है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि आयातित तथा घरेलू उत्पाद की तुलना उचित है, पाटन

मार्जिन तथा क्षति मार्जिन वह उचित तुलना करके निर्धारित किए गए हैं। पीसीएन सिद्धांत सभी हितवद्ध पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद और विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और टिप्पणियों को ध्यान रखने के बाद तैयार किया गया था ; और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है;

(ii) घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से पाटित सामानों के परिणाम स्वरूप वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) जांच से यह बात सामने आई है की किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता है;

और यह सिफारिश करती है कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाये।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो सारणी के कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और सारणी के कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और सारणी के कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

#### सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक/ निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4002 31 00	आइसोब्यूटीलीन-आइसोप्रिन रबड़	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	325	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	325	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	रूस	रूस समेत कोई भी देश	कोई भी	931	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई भी	931	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब	अल जुबेल पेट्रोकेमिकल कंपनी	594	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब समेत कोई भी देश	क्र. सं. (5) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	653	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और	सऊदी अरब	कोई भी	653	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

			संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश					
8	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	ऐसोनमोबिल एशिया पी टी इ लि	1047	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर समेत कोई भी देश	क्र. सं. (8) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	1152	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	सिंगापुर	कोई भी	1152	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	एक्सोनमोबिल प्रोडक्ट सोल्युशन कंपनी	781	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कोई भी देश	क्र. सं. (11) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	859	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	859	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपादन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/101/2024-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2024

**No. 17/2024-Customs (ADD)**

**G.S.R. 598(E).**—Whereas, in the matter of “Isobutylene-Isoprene Rubber (‘IIR’)” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 4002 31 00 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from People’s Republic of China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/05/2023-DGTR, dated the 29th June, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th June, 2024, has come to the conclusion, *inter alia*, that—

- (i) The Authority has adopted a Product Control Number (PCN) methodology and notified the same. The methodology has been applied to ensure that the imported and domestic product comparison is fair, the dumping margin and injury margin are determined by undertaking such fair comparison. The PCN methodology was developed after due opportunity to all interested parties and taking into account submissions and comments offered by various interested parties; and the dumping margin is positive and significant;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped goods from the subject countries;
- (iii) the investigation has not shown that any other factor could have caused injury to the domestic industry;

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), which are imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :—

**TABLE**

Sl. No.	Tariff Item	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4002 31 00	Isobutylene-Isoprene Rubber	China	Any country, including China	Any	325	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	China	Any	325	MT	USD
3	-do-	-do-	Russia	Any country, including Russia	Any	931	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of	Russia	Any	931	MT	USD

			America					
5	-do-	-do-	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Al-Jubail Petrochemical Company	594	MT	USD
6	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country, including Saudi Arabia	Any producer other than (5)	653	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	Saudi Arabia	Any	653	MT	USD
8	-do-	-do-	Singapore	Singapore	ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd	1047	MT	USD
9	-do-	-do-	Singapore	Any country, including Singapore	Any producer other than (8)	1152	MT	USD
10	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	Singapore	Any	1152	MT	USD
11	-do-	-do-	United States of America	United States of America	ExxonMobil Product Solutions Company	781	MT	USD
12	-do-	-do-	United States of America	Any country, including the United States of America	Any producer other than (11)	859	MT	USD
13	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	United States of America	Any	859	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 190354/101/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.